

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2016—आश्विन 27, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2016

अधि. क्रमांक 27-एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला दमोह	1	हटा	1	श्री राकेश वर्मन (अ.जा.), सुभाष वार्ड, हटा.
				2	श्रीमती सुधा सेन, श्री मंगललाल सेन रामगोपाल वार्ड, हटा.
				3	श्री कांत तिवारी श्री गंगा प्रसाद तिवारी, सुभाष वार्ड हटा.
				4	श्री रमाकांत रजक श्री भट्टी प्रसाद रजक, हजारी वार्ड.

2	जिला पन्ना	1	पन्ना	1	श्री चंचल जैन श्री संतोष कुमार जैन, स्वास्तिक कम्प्यूटर, टेकुरिया मोहल्ला, अजयगढ़ चौराहा, थाना कोतवाली पन्ना.
				2	श्री राकेश शर्मा (अ.जा.) श्री गरीबदास शर्मा, धाम मोहल्ला वार्ड नं. 6, कोतवाली थाना पन्ना.
				3	श्रीमती संगीता शिवहरे, श्री दिलीप शिवहरे, कटरा मोहल्ला कोतवाली के पास पन्ना.
				4	श्रीमती उर्मिला कुशवाहा श्री राजकुमार कुशवाहा, वार्ड नं. पन्नाधाम मोहल्ला.
2	जिला श्योपुर	1	श्योपुर कलां	1	श्रीमती मिथलेश तोमर, श्री ज्ञान सिंह तोमर, वार्ड नं. 5, वनमंडल केम्पस, श्योपुर.
				2	श्री जगदीश प्रजापति स्व. श्री मांगीलाल प्रजापति कुम्हार, मोहल्ला वार्ड नं. 17, श्योपुर.
				3	श्री सुबोध जैन श्री सौभागमल जैन, सरावगी मोहल्ला वार्ड नं. 3.
				4	श्रीमती आशा बैरवा श्री गुरु प्रकाश बैरवा, सहारा इंडिया वाली वार्ड नं. 17.
3	जिला उज्जैन	1	महिदपुर	1	श्री तिलकराज कालरा श्री उदयभान कालरा, नारायण रोड पुरानी गैस एजेन्सी महिदपुर.
				2	श्रीमति आशा राठौर श्री जगदीश राठौर, राठौर किराना स्टोर्स नारायण रोड, महिदपुर.
				3	मो. सलीम शोयब मो. नागौरी, रसूलपुर मोहल्ला वार्ड नं. 3, महिदपुर.
				4	श्री मुकेश चौहान (अ.जा.) श्री नानूराम चौहान, रामलीला मैदान राधाकृष्ण मंदिर के पीछे, महिदपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	जिला उज्जैन	2	नागदा	1	श्री पूनमचंद गेहलोत श्री रामलाल गेहलोत, 56 महाराणा प्रताप नगर, नागदा.
				2	श्री सुभाष शर्मा श्री नारायण प्रसाद शर्मा, 111-ई ब्लॉक बिरलाग्राम नागदा.
				3	श्री राजेश गगरानी श्री कालुराम गगरानी, 56 शारदा गली (चिकित्सालय मार्ग), नागदा.
				4	श्रीमती शर्मिला जैन श्री केशव जैन, 208 रामसहाय मार्ग, नागदा.
4	जिला झाबुआ	1	झाबुआ	1	श्रीमती सावित्री मेड़ा श्री संजय मेड़ा, राती तलई वार्ड झाबुआ 11.
				2	श्री कीर्ति भावसार श्री रामकृष्ण भावसार, वार्ड नं. 10, 153 रामकृष्ण नगर सदन गोपाल कालोनी, झाबुआ.
				3	श्री यशवंश भण्डारी श्री समीरमल भण्डारी वार्ड नं. 6, मेन मार्केट, झाबुआ.
				4	श्रीमती निर्मला अजनार स्व. सिंह अजनार श्री वीरेन्द्र वार्ड नं. 13 किशनपुरी, झाबुआ.
5	जिला विदिशा	1	विदिशा	1	श्री राधेश्याम सेन श्री रामरतन सेन, मुखर्जी नगर, विदिशा.
				2	श्री विनोद रैकवार श्री गुलाबचंद, चौपाडा मोहल्ला, विदिशा.
				3	श्री सिद्धार्थ जैन श्री सतीश जैन, हॉस्पिटल रोड, विदिशा.
				4	श्रीमती तारा चिड़ार श्री बृजलाल चिड़ार, वार्ड नं. 34, विदिशा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला विदिशा	2	गंजबासौदा	1	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा श्री चन्द्रशेखर शर्मा, लक्ष्मीनारायण मंदिर, बासौदा.	
			2	श्री हरिसिंह मीना श्री दौलत सिंह मीना, वार्ड नं. 20, राजेन्द्र नगर.	
			3	श्री भवानी सिंह श्री नारायण सिंह रघुवंशी वार्ड नं. 19, सिरसापुर.	
			4	पवन खटीक श्री मदनलाल खटीक, लक्ष्मीबाई पार्क के सामने वार्ड क्रमांक 19 राजेन्द्र नगर, गंजबासौदा.	
जिला विदिशा	3	सिरोंज	1	श्री अर्पित मित्तल श्री ओम प्रकाश मित्तल, वार्ड नं. 9 सिरोंज.	
			2	श्री अमित नेमा श्री मदनलाल नेमा, वार्ड नं. 18, राजपथ, सिरोंज.	
			3	श्री धन्नालाल जाटव श्री किशनलाल जाटव, सिकंदरपुरा वार्ड क्र. 16, सिरोंज.	
			4	श्रीमती मनोरमा चौरसिया श्री मदनलाल चौरसिया, वार्ड नं. 09, मदनमोहन पथ, सिरोंज.	
6 जिला सीहोर	1	आष्टा	1	श्री अजय टेलर पिता श्री चतुर्भुज सोनी, आष्टा तह. आष्टा, जिला सीहोर.	
			2	श्री जुगल मालवीय श्री हरीसिंह मालवीय, आष्टा तह. आष्टा, जिला सीहोर.	
			3	श्रीमती ताराबाई श्री रमेश कटारिया, आष्टा तह. आष्टा, जिला सीहोर.	
			4	श्री उमेश शर्मा स्व. श्री पी. डी. शर्मा, आष्टा तह. आष्टा, जिला सीहोर.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
7	जिला खरगौन	1	खरगौन	1	श्री सतीष महाजन श्री गोपीकिशन महाजन, सरस्वती नगर, खरगौन.	
				2	श्री शंकर सिंह मैना श्री दरियाव मैना, पहाडसिंह पुरा.	
				3	श्री चंद्रशेखर भालसे (अ.जा.) श्री हंसराज भालसे, शास्त्री नगर, खरगौन.	
				4	श्रीमती कलाबाई पटवा श्री दयालू पटवा, जौतापुरा, सनावद रोड, खरगौन.	
8	जिला टीकमगढ़	1	टीकमगढ़	1	श्री रमेश खरे श्री रामनाथ खरे, गोल काटर, ईदगाह के सामने, टीकमगढ़.	
				2	श्रीमती विमला शांडिल्य स्व. श्री रामाधार शांडिल्य, सिंधी कालोनी, कमानी दरवाजा, टीकमगढ़.	
				3	श्री शिवचरण उटमालिया (अ.जा.) श्री कडोरेलाल उटमालिया, बाहर कोट, हरिजन बस्ती, टीकमगढ़.	
				4	श्री मुन्ना लाल सेन श्री शिवदयाल सेन, शिवनगर कॉलोनी, टीकमगढ़.	
9	जिला नरसिंहपुर	1	गोटेगांव	1	श्रीमती पुष्पा घोषी श्री तेज सिंह घोषी, मुरलीधर वार्ड, गोटेगांव.	
				2	श्री रियाजउद्दीन खान श्री कमरूद्दीन खान, ठाकुर बाबा वार्ड गोटेगांव.	
				3	श्री अखिलेश कुमार जैन स्व. जैन श्री सुरेश कुमार, रूद्रवार्ड, गोटेगांव.	
				4	श्री पंचमलाल झारिया (अ.जा.) श्री केवलराम झारिया, गांधी वार्ड गोटेगांव.	
			2	नरसिंहपुर	1	श्री विनोद श्रीवास्तव श्री बालमुकंद श्रीवास्तव, रानी अवंतीबाई वार्ड, नरसिंहपुर.
					2	श्री प्रतीक जैन स्व. श्री प्रकाशचंद्र जैन, गांधी वार्ड, नरसिंहपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3	श्रीमती बबीता जाट स्व. जाट श्री रावेन्द्र, किसानी वार्ड नरसिंहपुर.
				4	श्री लक्ष्मण कोरी (अ.जा.) श्री होरीलाल कोरी, बेलापुरकर वार्ड, नरसिंहपुर.
		3	गाडरवारा	1	श्री संजीव जैन श्री राजेन्द्र कुमार जैन, वार्ड नं. 4, राधा वल्लभ वार्ड, गाडरवारा.
				2	श्रीमती सुषमा साहू श्री रामेश्वर साहू, वार्ड नं. 17, जवाहर वार्ड, गाडरवारा.
				3	श्रीमती ममता दीक्षित डॉ. उपेन्द्र दीक्षित, वार्ड नं. 09, लक्ष्मीबाई वार्ड गाडरवारा.
				4	श्री सत्तार खान श्री जरदार खान, वार्ड नं. गाडरवारा, जगदीश वार्ड.
		4	करेली	1	श्री बृजेश माते स्व. श्री श्यामलाल माते, राम वार्ड करेली जिला नरसिंहपुर.
				2	श्री जगदीश मिश्रा श्री सुन्दरलाल मिश्रा, जयप्रकाश वार्ड करेली, जिला नरसिंहपुर.
				3	श्री भागीरथ तिवारी श्री शिवदयाल तिवारी, डॉ. प्रसाद वार्ड करेली, जिला राजेन्द्र नरसिंहपुर.
				4	श्रीमती बीना ओसवाल श्री दिनेश ओसवाल, हनुमान वार्ड कॉलोनी, जिला नरसिंहपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.